



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 1979/श्रावण 4, 1901

No 153]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 1979/SRAVANA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1979

संकल्प

सं० डी० सी० एच०-12(11)/78-को-आय०.—भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा कार्यान्वित हथकरघा सहकारिताओं के लिये सदस्य शिक्षा कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित करने का निर्णय किया है । समिति की रचना निम्न प्रकार से होगी :—

1. भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ की सहकारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष (गैर सरकारी)
3, श्री सांस्थानिक क्षेत्र, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली
2. निदेशक (प्रशिक्षण),
नागरिक प्रति और सहकारी विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली
3. मुख्य कार्यकारी
भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ
3, श्री सांस्थानिक क्षेत्र, पंचशील मार्ग,
होज खास के पीछे, नई दिल्ली-110016

4. मुख्य निदेशक (वस्त्र)
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
56, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
 5. संयुक्त निदेशक (डी० एस० आर्डी०),
योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
 6. अध्यक्ष,
उड़ीसा राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि०
मोपिंग हाल नं० 11, बैस्टून मार्केट बिल्डिंग,
भुवनेश्वर
 7. उप विकास आयुक्त (हथकरघा)
हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
- सदस्य संयोजक
2. समिति के निम्नलिखित कार्य विषय होंगे :—
1. केन्द्रीय औद्योगिक विकास विभाग द्वारा केन्द्रीय सहायता से भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा चलाई जाने वाली हथकरघा बुनकर सहकारिताओं के लिये सदस्य शिक्षा इकाईयों के कार्यों का अनुमान लगाना ।
 2. हथकरघा बुनकर सहकारिताओं के सदस्य शिक्षा के कार्यक्रम के विस्तार की सम्भावनाओं का अनुमान लगाना ।
 3. समिति को चाहिये कि वे अपना प्रतिवेदन, हथकरघा विकास आयुक्त को 31 अगस्त 1979 तक प्रस्तुत कर दें ।

ए० एफ० कुटो, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 20th July, 1979

RESOLUTION

No. DCH/12/(11)/78-Coop.—The Government of India have decided to constitute an Evaluation Committee to evaluate the progress of the Member Education Programme for Handloom Cooperatives being implemented by National Cooperative Union of India. The Composition of the Committee will be as under :—

- | | |
|---|----------|
| 1. Chairman of the Committee on Cooperative Education of the National Cooperative Union of India (Non-official), 3 Siri Institutional Area, Panchsheel Marg, New Delhi. | Chairman |
| 2. Director (Training), Union Department of Civil Supplies & Co-operation Krishl Bhavan, New Delhi. | Member |
| 3. Chief Executive, National Cooperative Union of India 3, Siri Institutional Area, Panchsheel Marg, (Behind Hauz Khas) New Delhi-110016. | Member |
| 4. Chief Director (Textiles), National Cooperative Development Corporation, 56, Nehru Place, New Delhi. | Member |

- | | |
|--|-----------------|
| 5. Joint Director (VSI) Planning Commission, Yojna Bhavan, New Delhi. | Member |
| 6. Chairman, Orissa State Handloom Weavers Cooperative Society Ltd., Shopping Hall No. 11, Western Market Building, Bhubneswar-9 | Member |
| 7. Deputy Development Commissioner (Handlooms), Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Industry Deptt. of Industrial Development Udyog Bhavan, New Delhi. | Member-Convener |

The following are terms of reference for the Committee :

- (i) To assess the performance of the Member—Education Units for Handloom Weavers Cooperatives run by the NCUI with Central assistance from the Union Department of Industrial Development, and
- (ii) To assess the potentialities of expansion of the programme for Member-Education of handloom weavers co-operatives.

The Committee should submit its report to the Development Commissioner for Handlooms latest by 31st August, 1979.

A.F. COUTO, Addl. Secy.